



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29—मई 5, 2017 (वैशाख 9, 1939)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29—MAY 5, 2017 (VAISHAKHA 9, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2017

सं.आरएस./3/1/1/2017/18-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सहायक निदेशक श्री हर प्रतीक आर्य को 10 अप्रैल, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के 12वें स्तर में (15,600—39,100 रुपए के वेतन बैंड-3 + 7600/- रुपए के ग्रेड वेतन के पूर्व-संशोधित वेतनमान में) तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मार्च 2017

सं.एफ-15/02/जीएन-8205/एएन-I/2017—दिनांक 04.01.2017 को हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [67000-79000 रुपये के एच ए जी वेतनमान (संशोधन पूर्व)] में स्तर 15 में मुख्य संपादक सह मुख्य कार्यकारी, एल एस टी वी के पद हेतु चयन होने के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष, श्री आशीष जोशी को 1 मार्च, 2017 के पूर्वाहन से 28 फरवरी, 2019 तक दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संविदा आधार पर मुख्य संपादक-सह-मुख्य कार्यकारी, एल एस टी वी के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. उन्हें, प्रति माह 2,10,000 रुपये (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) के समेकित पारिश्रमिक (शुल्क) का भुगतान किया जाएगा। उनकी नियुक्ति, दिनांक 02 मार्च, 2017 के पत्र सं. एफ. 15/02/2017/एएन-I में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार विनियमित होगी।

पी सी कौल, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 मार्च 2017

सं. एफ 23/02/2017/जी एन-8209/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती प्रभा सक्सेना, निदेशक (पीएसएस) को 12.03.2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) {37400-67000 रुपये (पी बी-4) + ग्रेड पे 10000 रुपये (संशोधन पूर्व)} के स्तर 14 में संयुक्त सचिव के ग्रेड में नियुक्त करती हैं।

पी.सी.कौल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 मार्च 2017

सं.एफ-23/22/2015/जीएन-8206/एएन-I—दिनांक 28 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. एफ-23/22/2015/जीएन-8158/एएन-I में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, भारतीय आयुद्ध निर्माणी सेवा की संशोधन पूर्व वेतन संरचना में पे बैंड 37400-67000 रुपये (पी बी-4) और ग्रेड पे 10000 रुपये के अनुरूप पे मैट्रिक्स (अस्थायी) के स्तर 14 में संयुक्त सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि 02 दिसम्बर, 2019 (अर्थात् उनके संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण अर्थात् रक्षा मंत्रालय द्वारा संवर्ग स्वीकृति प्रदान किए जाने की तारीख) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगी।

अर्चना पठनिया, उप सचिव

दिनांक 8 मार्च 2017

सं.एफ-22/02/2013/जीएन-8207/एएन-I—दिनांक 22 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. पीएफ.857-आर(3)/जी एन-7336/एएन-I/2013 और दिनांक 23 मई, 2014 की अधिसूचना सं.पीएफ. 862-आर(3)/जीएन-7451/एएन-I/2014, के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारियों ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख को शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है :-

क्र. सं.	नाम	परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी करने की प्रभावी तिथि
1	श्रीमती मल्लिका बोस	20.11.2015
2	श्री धर्मेन्द्र कुमार	20.11.2015

क्र. सं.	नाम	परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी करने की प्रभावी तिथि
3	श्रीमती शालिमा शर्मा	20.11.2015
4	श्री विनोद कुमार खुयाहामा	20.11.2015
5	कु. मनमोहन कौर नन्दा	21.05.2016
6	श्रीमती अनिता नन्दा	21.05.2016
7	श्रीमती इन्दु शर्मा	21.05.2016

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 9 मार्च 2017

सं.24/09/जीएन-8208/2015/एएन-I—दिनांक 20.12.2003 के आर एंड सी एस आदेश सं. पी डी ए-1076/2003 के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों की शोध /संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता नीचे दिए गए क्रम में निर्धारित की जाती है :-

क्र. सं.	नाम
1	श्री आर. गणेश
2	श्री मानसिंह यादव
3	श्री संजीव कुमार
4	श्रीमती विजिता रे मालवीय
5	श्रीमती इंदुमति के. विश्वनाथ
6	श्रीमती पूनम भगत

2. यह दिनांक 22.12.2015 की अधिसूचना सं. 24/9/जी एन - 7916/2015/ए एन - I के अनुक्रम में है।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 31 मार्च 2017

सं.पी.एफ. 235-आर(7)/जी एन-8211/2017/ए एन-I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री टीका राम नौरियाल, उप सचिव 31 मार्च, 2017 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 मार्च 2017

सं.एफ.15/10/2014/जी एन-8210/ए एन-I—28 सितम्बर, 2016 को अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की अवधि समाप्त होने के परिणामस्वरूप, श्री राजेश कुमार, जिन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति के निजी स्टॉफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में सभापति के प्रसादपर्यंत या उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, को 29 सितम्बर, 2016 से 13 अक्टूबर, 2016 तक 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् 13 अक्टूबर, 2016 के अपराहन से उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।

2. दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 के समाचार भाग-दो सं. 4513 के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के पुनर्गठन और उक्त समिति के सभापति के रूप में श्री गणेश सिंह की नियुक्ति के पश्चात् श्री राजेश कुमार को 05 दिसम्बर, 2016 से अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति (श्री गणेश सिंह) के निजी स्टॉफ में पे मैट्रिक्स (अस्थाई) [15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में पुनः नियुक्त किया जाता है।

3. वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में श्री राजेश कुमार की नियुक्ति सेवाधृति आधार पर और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसादपर्यंत अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी आधार पर होगी।

4. श्री राजेश कुमार का पदनाम अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 31 मार्च 2017

सं.पी.एफ.1540-आर(7)/जी एन-8212/ए एन-1/2017—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री जगबीर सिंह, सुरक्षा अधिकारी, 31 मार्च, 2017 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 2017

सं. ए-19013/10/2012—प्रशासन—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में डा. भाष्यम कस्तुरी, जो कि अभी तक संविदा आधार पर संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे, को वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग) तदनुरूपी वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन 8700/- (छठा केन्द्रीय वेतन आयोग) में नये संविदा आधार पर, दिनांक 13 अप्रैल 2017 के पूर्वाहन से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. के. जैन, उप सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 अप्रैल 2017

सं.ए-12034/18/2008-ई.III/प्रशा.III—भारत के राष्ट्रपति श्री एम.एम.देवधासन, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्यप्रभाग), मुख्यालय, नई दिल्ली को पदोन्नति आधार पर उप निदेशक (प्रशासन) के पद पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्यप्रभाग), मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 03.04.2017 (अपराहन) से नियुक्त करते हैं।

संजय कुमार, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2016

सं. 14015/29/2015 अ.भा.से. (I)-क—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग के मणिपुर खंड में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के

लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 10.05.2016 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 05.07.2016 को अनुमोदित की गई त्रिपुरा के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली सूची को अधिसूचित करते हैं:-

चयन सूची 2014 (1.1.2014 से 31.12.2014 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
1.	प्रताप चकमा (अजा)	01.06.1960
2.	शरदिन्दु चौधरी	10.02.1961

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/29/2015-अ.भा.से. (I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के नियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2014 की चयन सूची के लिए उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश होने तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग आबंटित करते हैं:-

चयन सूची 2014 (1.1.2014 से 31.12.2014 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
1.	प्रताप चकमा (अजा)	01.06.1960
2.	शरदिन्दु चौधरी	10.02.1961

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2016

सं. 14015/16/2016-अ.भा.से.(I)-क—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत नागालैण्ड संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए 26.07.2016 को विनियम 5(5) के अंतर्गत तैयार की गई और दिनांक 20.06.2016 को विनियम 7(2) के अंतर्गत अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली नागालैण्ड राज्य के सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:-

चयन सूची 2015 (1.1.2015 से 31.12.2015 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
1.	असेंला कैटजार	12.11.1963
2.	ए. चुमरेमो ओड्यूओं	14.02.1959
3.	लेंगखोंगम, लिसोंग	29.01.1959
4.	सेंटी अओ	13.12.1960

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/16/2016-अ.भा.से. (I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2015 की रिक्तियों हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर नागालैण्ड राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) के विनियम, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत नागालैण्ड संवर्ग आबंटित करते हैं:-

चयन सूची 2014 (01.01.2014 से 31.12.2014 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
1.	असेंला कैटजार	12.11.1963
2.	ए. चुमरेमो ओड्यूओं	14.02.1959
3.	लेंगखोंगम, लिसोंग	29.01.1959
4.	सेंटी अओ	13.12.1960

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 19 अगस्त 2017

सं.14015/15/2016-अ.भा.से.(I)-क—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2015 की चयन सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के मणिपुर संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 30.06.2016 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 11.08.2016 को अनुमोदित की गई मणिपुर सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:-

2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	ए. टोम्बीकांत सिंह (अ.जा.)	01.09.1959
2.	केन्गू जूरिंग्ला (अ.ज.जा.)	29.04.1967
3.	नाओरेम प्रवीण सिंह (अ.जा.)	01.03.1971

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं.14015/15/2016-अ.भा.से.(I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष, 2015 की चयन सूची के लिए मणिपुर राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के प्रति भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत मणिपुर संवर्ग आबंटित करते हैं :-

2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	ए. टोम्बीकांत सिंह (अ.जा.)	01.09.1959
2.	केन्गू जूरिंग्ला (एसटी)	29.04.1967
3.	नाओरेम प्रवीण सिंह (अ.जा.)	01.03.1971

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 30 अगस्त 2016

सं. 14015/05/2016-अ.भा.से.-(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावलियों के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए 23.07.2016 के विनियम 5(5) के अन्तर्गत तैयार की गई तथा 23.08.2016 को विनियम 7(1) के अंतर्गत अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली छत्तीसगढ़ के गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:-

वर्ष 2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए)

अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
अनुराग पाण्डेय	17.08.64

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/05/2016-अ.भा.से.-(I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2015 हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावलियों के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर छत्तीसगढ़ के गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संवर्ग आबंटित करते हैं:-

वर्ष 2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच होने वाली रिक्तियों के लिए)

अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
अनुराग पाण्डेय	17.08.64

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 14 सितम्बर 2016

सं.14015/28/2016-अ.भा.से.(I)-क—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए वर्ष, 2015 की चयन सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग (मेघालय खण्ड) में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 10.06.2016 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 09.09.2016 को अनुमोदित की गई मेघालय सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नाम वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:-

2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
माहम सिंह लुहिद	04.01.1959

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं.14015/28/2016-अ.भा.से.(I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष, 2015 की चयन सूची के लिए मेघालय राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के प्रति भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग आबंटित करते हैं :-

2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
माहम सिंह लुहिद	04.01.1959

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 29 सितम्बर 2016

सं. 14015/26/2016-अ.भा.से.-(I)-क—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा चयन) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा की संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग के मिजोरम सेगमेंट में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अन्तर्गत दिनांक 15.06.2016 को तैयार निम्नलिखित नामों और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 28.09.2016 को अनुमोदित की गई मिजोरम राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:-

वर्ष 2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए)

अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
लालज़ारमाई	08.09.1969

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/26/2016-अ.भा.से.-(I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा चयन) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष, 2015 की चयन सूची के लिए मिजोरम के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग आबंटित करते हैं:-

वर्ष 2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए)

अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
लालज़ारमाई	08.09.1969

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 24 नवम्बर 2016

सं. 14015/12/2016-अ.भा.से. (I)- क—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल में पदोन्नति कोटा की चयन सूची 2012, 2013, 2014 एससीएस रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 17.10.2016 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 21.11.2016 को अनुमोदित की गई केरल के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली सूची को अधिसूचित करते हैं:-

चयन सूची, 2012 (01.01.2012 से 01.12.2012 के बीच होने वाली रिक्तियों के लिए)

अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
शून्य	-----

चयन सूची, 2013 (01.01.2013 से 01.12.2013 के बीच होने वाली रिक्तियों के लिए)

अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
शून्य	-----

चयन सूची, 2014 (01.01.2014 से 01.12.2014 के बीच होने वाली रिक्तियों के लिए)

अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
डॉ. पी. सुरेश बाबू	31.05.1960

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/12/2016-अ.भा.से. (I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के नियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2014 की चयन सूची के लिए उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए केरल राज्य सिविल सेवा के

निम्नलिखित सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश होने तक परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत केरल संवर्ग आबंटित करते हैं:-

चयन सूची 2014 (01.01.2014 से 31.12.2014 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
डॉ. पी. सुरेश बाबू	31.05.1960

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 13 जनवरी 2017

सं.14015/17/2016-अ.भा.से.(I)-क—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के उड़ीसा संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 15.12.2016 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 11.01.2017 को अनुमोदित की गई उड़ीसा सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:-

2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
ओए*#	ध्रुव चरण पंचभाया	19.07.1956
ओबी*@	सुशील कुमार दास सं. 3	10.01.1957
1.	कबीर किस्सन	02.07.1959
2.	सुकदेव दास	02.03.1959
3.	प्रमोद कुमार पांडा	15.05.1959
4.	प्रेमानिधि सेठ	12.04.1959
5.	द्विजराज कार	04.02.1959
6.	माधव चन्द्र बरीहा	01.02.1959
7.	दुखीश्याम पैक	03.12.1959
8.	गंगाराम प्रधान	05.01.1959
9.	हेमंत कुमार पाधी	03.12.1959
10.	अशोक कुमार प्रुसेठ	05.01.1959
11.	प्रशांत कुमार दास	23.04.1959
12.	ज्ञानरंजन दास	03.01.1964
13.	गोस्वामी गोलम देबता	15.02.1959

* क्रम सं. ओए तथा ओबी पर दिए गए नामों को भारतीय प्रशासनिक सेवा(पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार चयन सूची के आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

क्रम सं. ओए पर दिए गए नाम को उनके खिलाफ लंबित अनुशासनिक कार्यवाही तथा आपराधिक कार्यवाहियों के अध्ययधीन औपबंधिक रूप से सूची में शामिल किया गया है।

@ क्रम सं. ओबी पर दिए गए नाम को उनके खिलाफ लंबित अनुशासनिक कार्यवाही तथा आपराधिक कार्यवाहियों के अध्ययधीन औपबधिक रूप से सूची में शामिल किया गया है।

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं.14015/17/2016-अ.भा.से.(I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष, 2015 की चयन सूची के लिए उड़ीसा राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उड़ीसा संवर्ग आबंटित करते हैं :—

2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	कबीर किस्सन	02.07.1959
2.	सुकदेव दास	02.03.1959
3.	प्रमोद कुमार पांडा	15.05.1959
4.	प्रेमानिधि सेठ	12.04.1959
5.	द्विजराज कार	04.02.1959
6.	माधब चन्द्र बरीहा	01.02.1959
7.	दुखीश्याम पैक	03.12.1959
8.	गंगाराम प्रधान	05.01.1959
9.	हेमंत कुमार पाधी	03.12.1959
10.	अशोक कुमार प्रुसेठ	05.01.1959
11.	प्रशांत कुमार दास	23.04.1959
12.	ज्ञानरंजन दास	03.01.1964
13.	गोस्वामी गोलम देबता	15.02.1959

पंकज गंगवार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2017

सं. ए-22012(1)/2016-आ.सला.(प्रशा-1)—आर्थिक मामलों के विभाग के आदेश संख्या पी-1/2017 (एफ.संख्या 13016/1/ 2017-आई.ई.एस.) दिनांक 22 मार्च, 2017, के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा सुश्री प्रीती मदान (भा.आ.से.: 1981) को भारतीय आर्थिक सेवा के

उन्नत लेवल वेतनमान रुपये 80,000/- स्थिर (संशोधन पूर्व) लेवल-17 (रुपये 2,25,000/- स्थिर) संशोधित वेतन संरचना पर प्रधान सलाहकार के पद पर आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में दिनांक 23 मार्च, 2017 की पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

सीमा गौड़, आर्थिक सलाहकार

वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2017

सं. ए-38012/1/2017-संवर्ग.—अधिवर्षिता की आयु होने पर पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अपने नाम के आगे उल्लिखित तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	अधिवर्षिता की तारीख
1.	के.एम. शशीधरन	उप सचिव	22.03.1957	31.03.2017
2.	एस. बालाकृष्णन	अनुभाग अधिकारी	23.03.1957	31.03.2017

अजय कुमार, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2017

सं. ए-38011/8/2016-स्थापना—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के श्री ए.के. अग्रवाल, अपर औद्योगिक सलाहकार दिनांक 31.03.2017 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं ।

टी.पी.एन. सिंह, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2017

सं. ए-19015/1/2017-एच.आर.—राष्ट्रपति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी श्री राम कुमार बैरिया को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2017 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

भास्कर कालड़ा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2017

सं. ए-12025/1/2017-स्थापना—राष्ट्रपति, व्यय विभाग के दिनांक 15.03.2017 के पत्र संख्या 12025/1/2015-सी.ए.सी. के अनुसरण में श्री दीपक गर्ग को, 15600/- से 39100/- रुपये और 5400/- रुपये ग्रेड वेतन के पूर्व-संशोधित वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 (56100/- से 177500/- रुपये)] में दिनांक 21.03.2017 पूर्वाह्न से, उपभोक्ता मामले विभाग में सहायक निदेशक (लागत) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परीक्षा (Probation) पर रहेंगे।

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2017

सं. ए-38020/1/2017-प्रशा.-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की श्रीमती सुमन भसीन, निजी सचिव, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2017 की अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हुई।

जितेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

नई दिल्ली-110108, दिनांक 10 अप्रैल 2017

ए.12025/21/2015-सीएचएस.IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. नीलम रुंडा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-III(ऑफ्थैल्मोलोजी) के पद पर 22 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 अप्रैल 2017

सं. ए. 12025/387/2014-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दीपक सोनियारे को 12.02.2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) (रूप 15600-39100/-)+ रूप 5400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. दीपक सोनियारे को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. दीपक सोनियारे अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

डी. डी. माहेश्वरी, अवर सचिव

सं. ए.12025/81/2016-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रवीण बेलवलकर को दिनांक 11 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी - 3 के वेतनमान (15600-39100 रूप + 5400/- रूप ग्रेड वेतन) (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. प्रवीण बेलवलकर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

डी. डी. माहेश्वरी, अवर सचिव

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2017

सं. 3-18/2014-प्रशा.V—राष्ट्रपति श्री जी. बाबा साहेब, प्रशासनिक अधिकारी को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के तहत केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोची में 15 मार्च, 2017 (पूर्वाह्न) से तत्काल प्रभाव से वेतन बैंड-3, 5400/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100 रु. (पूर्व- संशोधित) पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर (सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय) नियुक्त करते हैं। वे दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे।

योगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 अप्रैल 2017

सं. डब्ल्यूबीपी-29/53/2015-ओ/ओ यूएस (डब्ल्यूबी)—राष्ट्रपति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग (सप्लाई विभाग), में केंद्रीय सचिवालय सेवा काडर के अवर सचिव, श्री परिमल करण, को आईडीए सहायता प्राप्त "आईसीडीएस सिस्टम सुदृढीकरण और पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की [केंद्रीय परियोजना प्रबंधन यूनिट (सीपीएमयू)], में प्रतिनियुक्ति आधार पर पीबी-3 [15600-39100 + रुपये 6600/- (ग्रेड पे)] में दिनांक 01 फरवरी, 2017 से 30 दिसम्बर, 2017 तक परियोजना प्रबंधक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मनोज कुमार सिंह, निदेशक

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2017

सं. 48011/2/2008-स्था.—राष्ट्रपति 20 मार्च, 2017 (अपराहन) से श्री शिशिर कुमार रथ, भारतीय वन सेवा (ओआर:1987) को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 मार्च 2017

सं. एडी-06/1/2017-प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/14/2015-सीएस-1(एस) दिनांक 27 फरवरी, 2017 के अनुसरण में, राष्ट्रपति डाक विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी, श्री दीप शेखर सिंघल की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ प्रोन्नति की अवधि को 30.06.2017 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति/विस्तार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14 जुलाई, 2016 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

मनोरंजन सामल, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2017

सं. 2009/ई(जीआर)/5/1—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित प्रोबेशनरों को भारतीय रेल की यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसएमई) में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	नाम (श्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	बिपिन कुमार	17.12.2009
2.	दीपक गोयल	14.12.2009
3.	अविनाश प्रकाश	14.12.2009
4.	आनन्द ऋषि श्रीवास्तव (प्रोविजनल)	14.12.2009
5.	विकास कुमार	26.12.2009
6.	शैलेन्द्र कुमार शर्मा	03.03.2010

क्र. सं.	नाम (श्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
7.	संयाम प्रकाश पोवर	14.12.2009
8.	मुकेश कुमार	14.12.2009
9.	देबब्रत चटर्जी	03.03.2010
10.	देवीदत्त सतपाठी (प्रोविजनल)	14.12.2009
11.	सन्नी बिश्वजीत	14.12.2009
12.	विनोद देवरा	14.12.2009
13.	संजय कुमार (प्रोविजनल)	14.12.2009
14.	शिव सिंह (प्रोविजनल)	14.12.2009
15.	नवीन कुमार सिंह	21.12.2009
16.	राज कुमार वर्मा	14.12.2009
17.	अश्वनी कुमार	14.12.2009
18.	सुभाष कुमार बौद्धा	03.03.2010
19.	प्रमोद रावत (प्रोविजनल)	18.12.2009
20.	नितिन कुमार	14.12.2009

कमल किशोर, उप निदेशक स्थापना (राज. भर्ती)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मार्च 2017

सं.13/13/2011-ईसी.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 9 की उप धारा (1) की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार एतद्वारा श्री अभय बाकरे, आईआरएसईई को 10.03.2017 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि अथवा उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनिवार्य "कूलिंग ऑफ" अवधि की छूट देते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर रु.67000-79,000/- (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पद पर नियुक्त करती है।

2. इसे मंत्रालय की दिनांक 16.03.2017 की अधिसूचना सं.13/13/2011-ईसी के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

अरुण अग्रवाल, अवर सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 अप्रैल 2017

सं. ए-19011/1/2017-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्रीमती वी. राधा, आई.ए.एस. (एमएच: 1994) को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 30 मार्च 2017 अपराह्न से संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुधीर कुमार सिन्हा, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2017

सं. ए.32012/02/2016-आईएसएच-1—राष्ट्रपति, श्री वी जे गोंसाल्वस को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(रु.56,100-1,77,500/-) के वेतन मान में कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, (डीजीफासली), मुम्बई में दिनांक 30-11-2016 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहायक निदेशक (सुरक्षा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 10th April 2017

No. RS/3/1/2017/18-PerI— The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Har Prateek Arya in the grade of Assistant Director in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Deputy Director in the level 12 in the pay matrix (Pre-revised scale of Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/-) plus usual allowances as admissible under rules in that Secretariat with effect from the forenoon of 10th April, 2017 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd March 2017

No. F.15/02/GN-8205/AN-1/2017—Consequent upon his selection to the post of Editor-in-Chief cum Chief Executive, LSTV in Level 15 in the Pay Matrix (Provisional) [HAG Scale of Rs. 67,000—79,000/- (pre-revised)] on the basis of personal interview held on 04.01.2017, the Speaker is pleased to appoint Shri Aashish Joshi as Editor-in-Chief cum Chief Executive, LSTV on contract basis for a period of two years with effect from the forenoon of 1st March, 2017 to 28th February, 2019 or until further orders, whichever is earlier.

2. He will be paid consolidated remuneration (fee) of Rs. 2,10,000 (Rs.2 lakh and 10 thousand only) per month. His appointment will be regulated as per the terms and conditions stipulated in the letter No.F.15/02/2017/AN-1 dated 2nd March, 2017.

P. C. KOUL, Jt. Secretary

The 15th March 2017

No. F.23/02/2017/GN-8209/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Prabha Saxena, Director (PSS), to the grade of Joint Secretary in Level 14 in the Pay Matrix (Provisional) {Rs.37400-67000(PB-4)+G.P.Rs.10000 (pre-revised)} with effect from 12.03.2017, until further orders.

P. C. KOUL, Jt. Secretary

New Delhi-110001, the 6th March 2017

No. F.23/22/2015/GN-8206/AN-I—In partial modification to Notification No.F.23/22/2015/GN-8158/AN-I dated 28th November, 2016, the term of deputation of Shri Vinod Kumar Tripathi, IOFS, as Joint Secretary in Level 14 in the Pay Matrix (Provisional) corresponding to Pay Band of Rs.37400- 67000(PB-4) plus Grade Pay Rs.10000 in the pre-revised structure of pay shall be upto 2nd December, 2019 (i.e. the date upto which the Cadre Controlling Authority viz. Ministry of Defence has granted Cadre Clearance) or until further orders, whichever is earlier.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secretary

The 8th March 2017

No. F.22/02/2013/GN-8207/AN-I—In continuation of Notifications Nos.PF.857-R(3)/GN-7336/AN-I/2013 dated 22nd November, 2013 & No.PF.862-R(3)/GN-7451/AN-I/2014 dated 23rd May, 2014, the following persons have satisfactorily completed the probation period in the grade of Research/Reference Officer with effect from the date mentioned against each :—

Sl.No.	Name	Effective date of Satisfactory completion of probation period
1	Smt. Mallika Bose	20.11.2015
2	Shri Dharmendra Kumar	20.11.2015
3	Smt. Shalima Sharma	20.11.2015
4	Shri Vinod Kumar Khuyahama	20.11.2015
5	Km. Man Mohan Kaur Nanda	21.05.2016

Sl.No.	Name	Effective date of Satisfactory completion of probation period
6	Smt. Anita Nanda	21.05.2016
7	Smt. Indu Sharma	21.05.2016

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secretary

The 9th March 2017

No. 24/9/GN-8208/2015/AN-I—In terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20.12.2003, the inter-se-seniority of the following officers in the grade of Research/Reference Officer is fixed in the order as shown below :—

Sl.No.	Name
01.	Shri R. Ganesh
02.	Shri Mansingh Yadav
03.	Shri Sanjiv Kumar
04.	Smt. Vijita Ray Malviya
05.	Smt. Indumathy K. Vishwanath
06.	Smt. Poonam Bhagat

2. This is in continuation of Notification No. 24/9/GN-7916/2015/AN-I, dated 22.12.2015.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secretary

The 31st March 2017

No. PF.235-R(7)/GN-8211/2017/AN-I—On attaining the age of superannuation, Shri Tika Ram Nauriyal, Deputy Secretary, has retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2017.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secretary

New Delhi-110001, the 16th March 2017

No. F.15/10/2014/GN-8210/AN-I—Consequent upon expiry of the term of the Committee on Welfare of Other Backward Classes on 28th September, 2016, Shri Rajesh Kumar, who was appointed as Senior Private Secretary on the personal staff of Chairperson, Committee on Welfare of Other Backward Classes during the pleasure of or co-terminus with the term of the Chairperson, is granted winding up period of 15 days with effect from 29th September, 2016 to 13th October, 2016 and, thereafter, his services, stand terminated with effect from the afternoon of 13th October, 2016.

2. After re-constitution of the Committee on Welfare of Other Backward Classes and appointment of Shri Ganesh Singh as the Chairperson of the said Committee vide Bulletin Part-II No.4513 dated 5th December, 2016, Shri Rajesh Kumar is appointed again to the grade of Senior Private Secretary in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs. 6,600/- (pre-revised)] on the personal staff of Chairperson, Committee on Welfare of Other Backward Classes (Shri Ganesh Singh) with effect from 5th December, 2016.

3. The appointment of Shri Rajesh Kumar to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairperson, Committee on Welfare of Other Backward Classes.

4. Shri Rajesh Kumar will be designated as Private Secretary to the Chairperson, Committee on Welfare of Other Backward Classes.

SANJAY SETHI, Dy. Secretary

The 31st March 2017

No. PF.1540-R(7)/GN-8212/AN-I/2017—On attaining the age of superannuation, Shri Jagbir Singh, Security Officer has retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2017.

SANJAY SETHI, Dy. Secretary

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 18th April 2017

No. A-19013/10/2012-Ad.—The President is pleased to appoint Dr. Bhashyam Kasturi, working as Joint Director on contract basis, as Director in the National Security Council Secretariat in the Pay Matrix-13 (7th CPC) corresponding to Pay Band-4 plus Grade Pay of Rs. 8700/- (6th CPC) on fresh contract basis for a period of 5 years with effect from 13.04.2017 (FN) or until further orders whichever is earlier.

R. K. JAIN, Dy. Secretary

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 17th April 2017

No. A-12034/18/2008-E.III/Admn.III—The President is pleased to appoint Shri M. Devadhasan, Senior Administrative Officer, National Sample Survey Office (Field Operations Division), Hqrs, New Delhi to the post of Deputy Director(Administration) on promotion basis in NSSO(FOD) Hqrs, New Delhi with effect from 03.04.2017(A/N).

SANJAY KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 6th July 2016

No. 14015/29/2015-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Tripura containing the following names prepared on 10.05.2016 under Regulation 5(5) and approved on 05.07.2016, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Tripura segment of Joint Manipur-Tripura cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government :—

Select List of 2014(Against vacancies arisen between 1.1.2014 to 31.12. 2014)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Pratap Chakma (ST)	01.06.1960
2.	Saradindu Choudhury	10.02.1961

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/29/2015-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Tripura to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2014, on probation until further orders and to allocate them to the Tripura segment of Joint IAS Manipur-Tripura Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2014(Against vacancies arisen between 1.1.2014 to 31.12. 2014)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Pratap Chakma	01.06.1960
2.	Saradindu Choudhury	10.02.1961

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 27th July 2016

No. 14015/16/2016-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion)

Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Nagaland containing the following names prepared on 20.06.2016 under Regulation 5(5) and approved on 26.07.2016, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Nagaland cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government :—

Select List of 2015 (Against vacancies arisen between 1.1.2015 to 31.12. 2015)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Asenla Keitzar	12.11.1963
2.	A. Chumremo Odyuo	14.02.1959
3.	Lengkhongam Limsong	29.01.1959
4.	Senti Ao	13.12.1960

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/16/2016-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Nagaland to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2015, on probation until further orders and to allocate them to the Nagaland Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2015 (Against vacancies arisen between 1.1.2015 to 31.12. 2015)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Asenla Keitzar	12.11.1963
2.	A. Chumremo Odyuo	14.02.1959
3.	Lengkhongam Limsong	29.01.1959
4.	Senti Ao	13.12.1960

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 19th August 2016

No. 14015/15/2016-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Manipur containing the following names prepared on 30.06.2016 under Regulation 5(5) and approved on 11.08.2016, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Manipur cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2015 :—

Select List of 2015 (Against vacancies arisen between 1.1.2015 to 31.12.2015)

S.No	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1	A. Tombikanta Singh (SC)	01.09.1959
2	Kengoo Zuringla (ST)	29.04.1967
3.	Naorem Praveen Singh (SC)	01.03.1971

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/15/2016-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by

Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Manipur to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2015, on probation until further orders and to allocate them to the Manipur Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2015 (Against vacancies arisen between 1.1.2015 to 31.12.2015)

S.No	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1	A.Tombikanta Singh	01.09.1959
2	Kengoo Zuringla	29.04.1967
3.	Naorem Praveen Singh	01.03.1971

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 30th August 2016

No. 14015/05/2016-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officers of Chhattisgarh containing the following name prepared on 23.07.2016 under Regulation 5(5) and approved on 23.08.2016, under Regulation 7(1) towards filling up promotion quota vacancy in Chhattisgarh cadre of IAS under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government :—

Select List of 2015 (Against vacancies arisen between 1.1.2015 to 31.12.2015)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Anurag Pandey	17.08.1964

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/05/2016-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the Non-State Civil Service of Chhattisgarh to the Indian Administrative Service against the vacancy determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2015, on probation until further orders and to allocate him to the Chhattisgarh Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2015 (Against vacancies arisen between 1.1.2015 to 31.12.2015)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Anurag Pandey	17.08.1964

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 14th September 2016

No. 14015/28/2016-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Meghalaya containing the following name prepared on 10.06.2016 under Regulation 5(5) and approved on 09.09.2016, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in the cadre of Joint Assam-Meghalaya (Meghalaya Segment) of IAS, under

State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List 2015 :—

Select List of 2015 (Against vacancies arisen between 01.01.2015 to 31.12.2015)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Maham Singh Lhuid	04.01.1959

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/28/2016-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the State Civil Service of Meghalaya to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List 2015 on probation until further orders and to allocate him to the Joint Assam-Meghalaya Cadre of IAS, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2015 (Against vacancies arisen between 01.01.2015 to 31.12.2015)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Maham Singh Lhuid	04.01.1959

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 29th September 2016

No. 14015/26/2016-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Mizoram containing the following name prepared on 15.06.2016 under Regulation 5(5) and approved on 28.09.2016, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Mizoram Segment of Joint AGMUT cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government :—

Select List 2015 (Against vacancies arisen between 1.01.2015 to 31.12.2015)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1	Lalzarmawii	08.09.1969

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/26/2016-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the State Civil Service of Mizoram to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2015, on probation until further orders and to allocate her to the AGMUT Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List 2015 (Against vacancies arisen between 1.01.2015 to 31.12.2015)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1	Lalzarmawii	08.09.1969

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 24th November 2016

No. 14015/12/2016-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select Lists of State Civil Service officer of Kerala containing the following name prepared on 17.10.2016 under Regulation 5(5) and approved on 21.11.2016, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Kerala cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select Lists of 2012, 2013 & 2014 (SCS) :—

Select List 2012 (Against vacancies arisen between 1.01.2012 to 1.12.2012)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Nil	-----

Select List 2013 (Against vacancies arisen between 1.01.2013 to 1.12.2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Nil	-----

Select List 2014 (Against vacancies arisen between 1.01.2014 to 1.12.2014)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Dr. P. Suresh Babu	31.05.1960

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/12/2016-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9 (1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the State Civil Service of Kerala to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select Lists of 2014, on probation until further orders and to allocate him to the Kerala Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2014 (Against vacancies arisen between 1.01.2014 to 1.12.2014)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Dr. P. Suresh Babu	31.05.1960

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 13th January 2017

No. 14015/17/2016-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Odisha containing the following names prepared on 15.12.2016 under Regulation 5(5) and approved on 11.01.2017, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Odisha cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government :—

Select List of 2015 (Against vacancies arisen between 1.1.2015 to 31.12.2015)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
0A*#	Dhruba Charan Panchabhaya	19.07.1956
0B*@	Susil Kumar Das No. 3	10.01.1957
1.	Kabir Kissan	02.07.1959

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
2.	Sukadev Das	02.03.1959
3.	Pramod Kumar Panda	15.05.1959
4.	Premanidhi Seth	12.04.1959
5.	Dwijaraj Kar	04.02.1959
6.	Madhab Chandra Bariha	01.02.1959
7.	Dukhishyam Paik	03.12.1959
8.	Gangaram Pradhan	05.01.1959
9.	Hemanta Kumar Padhi	03.12.1959
10.	Ashok Kumar Pruseth	05.01.1959
11.	Prasanta Kumar Das	23.04.1959
12.	Gyanaranjan Das	03.01.1964
13.	Goswami Golam Debta	15.02.1959

* The names at S. No. 0A and 0B have been included in addition to the size of the Select List as per the 2nd proviso to Regulation 5(5) of the IAS (Appointment by Promotion) Regulation, 1955.

The name at Sl. 0A has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceeding and criminal proceedings pending against him.

@ The name at S. No. 0B has been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him.

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/17/2016-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Odisha to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2015, on probation until further orders and to allocate them to the Odisha Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2015 (Against vacancies arisen between 1.1.2015 to 31.12.2015)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Kabir Kissan	02.07.1959
2.	Sukadev Das	02.03.1959
3.	Pramod Kumar Panda	15.05.1959
4.	Premanidhi Seth	12.04.1959
5.	Dwijaraj Kar	04.02.1959
6.	Madhab Chandra Bariha	01.02.1959
7.	Dukhishyam Paik	03.12.1959
8.	Gangaram Pradhan	05.01.1959
9.	Hemanta Kumar Padhi	03.12.1959
10.	Ashok Kumar Pruseth	05.01.1959

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
11.	Prasanta Kumar Das	23.04.1959
12.	Gyanaranjan Das	03.01.1964
13.	Goswami Golam Debta	15.02.1959

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)
OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 12th April 2017

No. A-22012(1)/2016-Ec.Ad.(Admn.1)—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-1/2017 (F.No. 13016/1/2017-IES) dated 22nd March, 2017, the President is pleased to appoint Ms. Preeti Madan (IES: 1981), to the post of Principal Adviser, in the Apex scale of pay Rs. 80,000/- (fixed) (pre-revised) in the revised Pay Matrix Level 17 (Rs. 2,25,000/- fixed), in the Office of the Economic Adviser, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 23rd March, 2017 and until further orders.

SEEMA GAUR, Economic Adviser

DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi, the 6th April 2017

No. A-38012/1/2017-Cadre—On attaining the age of superannuation, the following Officers of CSS Cadre of Supply Division retired from Government service with effect from the dates mentioned against their names:

S. No.	Name	Designation	Date of Birth	Date of superannuation
1.	K. M. Sasidharan	Deputy Secretary	22.03.1957	31.03.2017
2.	S. Balakrishnan	Section Officer	23.03.1957	31.03.2017

AJAY KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 6th April 2017

No. A-38011/8/2016-Estt.—Sh A K Agarwal, Additional Industrial Advisor, D/o Chemicals & Petrochemicals in the Ministry of Chemicals & Fertilizers, has retired from Government Service on attaining the age of superannuation w.e.f. 31.03.2017.

T. P. N.SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 31st January 2017

No. A- 19015/1/2017-HR—The President is pleased to permit Shri Ram Kumar Bairiya, Section Officer in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to retire from government service with effect from the afternoon of 31.01.2017 on attaining the age of superannuation.

BHASKAR KALRA, Under Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 31st March 2017

No. A-12025/1/2017-Estt.—In pursuance of Department of Expenditure Letter No. A-12025/1/2015-CAC dated 15.03.2017, the President is pleased to appoint Shri Deepak Garg as Assistant Director (Cost) in the Department of Consumer

Affairs in the Pre-revised pay scale Rs. 15600/- to 39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/- (Level 10 in the Pay Matrix (Rs. 56,100/- to 1,77,500/-)) with effect from the forenoon of 21.03.2017. He will be on probation for a period of two years from the date of his joining.

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 17th April 2017

No. A-38020/1/2017-Admn.-I—Smt. Suman Bhasin, Private Secretary, of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.03.2017 (A.N.).

JITENDER SINGH, Dy. Director (Admn.)

New Delhi-110108, the 10th April 2017

No. A.12025/21/2015-CHS-IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Neelam Runda to the post of Specialist Grade-III (Ophthalmology) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service w.e.f. the forenoon of 22nd July, 2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

New Delhi-110011, the 12th April 2017

No. A.12025/387/2014-CHS-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Deepak Soniyare to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs.15,600—39100/-] + Grade Pay Rs.5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 12.02.2015 until further orders. Dr. Deepak Soniyare is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Deepak Soniyare shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

D. D. MAHESHWARI, Under Secretary

No. A.12025/81/2016-CHS-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Praveen Belwalkar in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs.15,600—39,100/-] + Grade Pay Rs.5,400/- (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 11th August, 2016 until further orders. Dr. Praveen Belwalkar is posted as Medical Officer under CGHS, Jabalpur. He will be on probation for a period of two years from the date of his appointment.

D. D. MAHESHWARI, Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 17th April 2017

No. 3-18/2014-Admn. V—The President is pleased to promote Shri G. Baba Saheb, Administrative Officer to the post of Senior Administrative Officer (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial) in the Pay Band-3 of Rs.15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (pre-revised) in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi under the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries with effect from 15th March, 2017 (F.N.). He will be on probation for a period of two years.

YOGINDER KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 7th April 2017

No. WBP-29/53/2015-O/O US (WB)—The President is pleased to appoint Shri Parimal Karan, Under Secretary of Central Secretariat Service Cadre in Department of Commerce (Supply Division), Ministry of Commerce & Industry as Project Manager in PB-3, [15,600—39,100/- + Rs.6600/- (Grade Pay)] on deputation basis in Central Project Management Unit (CPMU) of IDA assisted "ICDS Systems Strengthening and Nutrition Improvement Project (ISSNIP)", Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 1st February, 2017 till 30th December, 2017 or till further orders, whichever is earlier.

MANOJ KUMAR SINGH, Director

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th April 2017

No. 48011/2/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sisir Kumar Ratho, IFoS (OR:1987) as Joint Secretary in National Commission for Scheduled Tribes (NCST) with effect from 20th March, 2017 (FN).

VIJAY KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 27th March 2017

No. AD-06/1/2017-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M.No.6/14/2015-CS.I(S) dated 27th February, 2017, the President is pleased to extend the period of ad-hoc promotion in respect of Shri Deep Shekhar Singhal, Assistant Section Officer of Central Secretariat Service of Department of Posts in Section Officers' Grade upto 30.06.2017 or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment/extension is subject to the conditions mentioned in DoP&T's O.M dated 1st July, 2016.

MANORAJAN SAMAL, Asstt. Dir. General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 6th April 2017

No. 2009/E(GR)/I/5/1—The President is pleased to appoint the following probationers to Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME) with effect from the date noted against each :—

S.No.	Name (Sh.)	Date of Joining
1.	BIPIN KUMAR	17.12.2009
2.	DEEPAK GOEL	14.12.2009
3.	AVINASH PRAKASH	14.12.2009
4.	ANAND RISHI SRIVASTAVA (Provisional)	14.12.2009
5.	VIKAS KUMAR	26.12.2009
6.	SHAILENDRA KUMAR SHARMA	03.03.2010
7.	SANGRAM PRAKASH POWAR	14.12.2009
8.	MUKESH KUMAR	14.12.2009
9.	DEBABRATA CHATTERJEE	03.03.2010
10.	DEVIDATTA SATAPATHY (Provisional)	14.12.2009
11.	SUNNY BISHWAJEET	14.12.2009
12.	VINOD DEORA	14.12.2009
13.	SANJAY KUMAR (Provisional)	14.12.2009
14.	SHIV SINGH (Provisional)	14.12.2009
15.	NAVEEN KUMAR SINGH	21.12.2009
16.	RAJ KUMAR VERMA	14.12.2009
17.	ASHWANI KUMAR	14.12.2009
18.	SUBHASH KUMAR BAUDDHA	03.03.2010
19.	PRAMOD RAWAT (Provisional)	18.12.2009
20.	NITIN KUMAR	14.12.2009

KAMAL KISHOR, Dy. Director, Estt. (GR)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 22nd March 2017

No. 13/13/2011-EC—In terms of sub-section (1) of Section 9 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby appoints Shri Abhay Bakre, IRSEE as Director General, Bureau of Energy Efficiency in the scale of pay of Rs.67,000-79,000/- (pre-revised) on deputation basis by waiving the mandatory “cooling off” period, for a period of 05 years from the forenoon of 10.03.2017 or till attaining the age of 60 years or until further orders, whichever is the earliest.

2. This issues in supersession of this Ministry’s Notification No. 13/13/2011-EC dated 16.03.2017.

ARUN AGGARWAL, Under Secretary

MINISTRY OF DRINKING WATER & SANITATION

New Delhi–110003, the 6th April 2017

No. A-19011/1/2017-Admin.—The President is pleased to appoint Smt. V Radha, IAS (MH: 1994) as Joint Secretary in the Ministry of Drinking Water & Sanitation with effect from the afternoon of 30th March, 2017.

SUDHIR KUMAR SINHA, Under Secretary

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 12th April 2017

No. A-32012/02/2016-ISH-I—The President is pleased to appoint Shri V. J. Gonsalves to the post of Assistant Director (Safety) in the Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay Matrix in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes (DGFASLI), Mumbai, with effect from the forenoon of 30-11-2016 and until further orders.

RAJ KUMAR, Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in